

## एक्सपोर्ट मार्केटिंग पर निशुल्क राष्ट्रीय कार्यशाला पर प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक : 19 अक्टूबर, 2016

एमएसएमई-विकास संस्थान, भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कानपुर द्वारा मर्चेण्ट्स चैम्बर आफ उत्तर प्रदेश एवं फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, कानपुर के सहयोग से मर्चेण्ट्स चैम्बर आफ उत्तर प्रदेश, 14/76सिविल लाइन्स, कानपुर में दो दिवसीय एक्सपोर्ट मार्केटिंग पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के द्वितीय दिन का आयोजन आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 को किया गया।

कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य-अतिथि डॉ. एम.पी.अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री लक्ष्मी कोटसन लिमिटेड, कानपुर में अपने सम्बोधन में कहा कि एमएसएमई-डीआई, कानपुर के द्वारा डॉ दिवसीय एक्सपोर्ट मार्केटिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बंधुओं को निर्यात के क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए क्योंकि निर्यात में अपार सम्भावनाएं हैं तथा निर्यातक बनकर उद्यमी देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग कर सकते हैं।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में श्री मानवेन्द्र सिंह, जॉइंट डायरेक्टर, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री डी.टी. पराटे, सहायक निदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने प्रतिभागियों को विदेश व्यापार नीति (2015-20), ई-कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विपणन के विषय में जानकारी दिया।

श्री राजेश कुमार, उपनिदेशक, एमएसएमई-डीआई, कानपुर द्वारा निर्यात के लिए चलायी जा रही एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के बारे प्रतिभागियों को अवगत कराया।

श्री वी.के. सिंह, शाखा प्रबंधक, ईसीजीसी, कानपुर द्वारा पेमेंट इश्योरेंस के बारे में जानकारी दी गयी एवं फेमा अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।

श्री अलोक श्रीवास्तवा, फियो, कानपुर ने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एवं अन्य एक्सपोर्ट सम्बंधित विषयों की जानकारी दिया।

कार्यशाला के अंतिम स्तर में डॉ. एम.पी. अग्रवाल तथा श्री सुदीप गोयनका, निदेशक गोल्डी मसाले, ने निर्यातक के रूप में अपने अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा किये।

**उपस्थित गणमान्य:** कार्यक्रम में श्री राकेश श्रीवास्तवा, कंपनी सेक्रेटरी, श्री लक्ष्मी कोटसन लिमिटेड, मर्चेण्ट्स चैम्बर के सचिव श्री अरविन्द सिन्हा, एमएसएमई-विकास संस्थान, कानपुर के अधिकारी श्री अमित बाजपेयी, श्री चन्दन, कु0 प्रियंका सिंह भदौरिया, सहित लगभग 50 महिला उद्यमी बन्धुओं ने आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदत्त जानकारी से लाभान्वित हुए।

सधन्यवाद